



Dated: 07th September, 2023

To, Listing Department Bombay Stock Exchange Floor 1, Phiroze Jeejeeboy Towers Dalal Street Mumbai-400 001

Ref: SEA TV NETWORK LIMITED

Security Code: 533268 Security ID: SEA TV

Dear Sir/ Ma'am

Subject: Submission under Regulation 30 read with Schedule III and under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

We are enclosing herewith the copies of newspapers advertisement published as on 05th September 2023 in "The Financial Express" and in "Hindustan", regarding the Notice of 19th Annual General Meeting of the Company for the financial year 2022-23 and information regarding Book Closure, Cut-off Date and E-Voting in respect of the said AGM.

Copies of the said advertisements are also available on the website of the Company at https://www.seatvnetwork.com/investor.php

We request you to take the same on your records. Thanks & Regards Yours faithfully,

For SEA TV NETWORK LIMITED

Digitally signed by KARISHMA KARISHMA JAIN Date: 2023.09.07

JAIN 14:39:31 +05'30'

KARISHMA JAIN (Company Secretary & Compliance officer)

Encl: As Above

Sea TV Network Limited 148, Manas Nagar, Shahganj, Agra-282010 Tel: +91-562-4036666, 2512122 Fax: +91-562-2511070

CIN: L92132UP2004PLC028650

FINANCIAL EXPRESS

G20 COUNTDOWN BEGINS

Small N-reactors, jet deal, visa on Modi-Biden table

SHUBHAJIT ROY New Delhi, September 4

AS US PRESIDENT Joe Biden comes to India for the G20 summit, New Delhi and Washington are working on an ambitious slew of deliverables for their bilateral engagement that includes a possible nuclear pact on small modular nuclear reactors, an academic programme tailored for Indian students, movement on the drone deal, progress on US Congress approval for a defence deal on jet engines, a joint humanitarian aid for Ukraine, a more liberal visa regime for Indians and new consulates in each other's countries.

Sources told The Indian Express that Indian and the US officials are in hectic negotiations for the last few weeks about framing a "robust" and "outcome-oriented" ioint communique for President Biden's first visit to India as US President. The last US President to visit India was Donald Trump in February 2020.

Biden, who has visited India multiple times in different capacities, was keen to have a visit that takes the India-US story forward building on Prime Minister Narendra Modi's visit to Washington DC in June for the state visit.

Normally, bilateral visits are not included during the G20 summits — but India has made an exception for the US President and the Saudi Crown

India and the US are hoping to iron out the differences over the nuclear deal which cropped up after the civil nuclear liability law and the two sides hope to seal an agreement or an understanding to set up small nuclear reactors – seen as easier than going for more capital intensive large reactors.

In June, both sides had discussed negotiations between the Nuclear Power Corporation



Decked up: Workers give finishing touches to the recently-installed 28-foot-tall Nataraja statue at the Bharat Mandapam, where the G20 Summit will be held on September 9 and 10, in New Delhi on Monday

of India Limited (NPCIL) and Westinghouse Electric Company (WEC) for the साउत 2023 INDIA construction of six nuclear reac-

tors in India. And now the dis- GE jet engine deal, the two cussion on developing next sides are also negotiating a generation small modular reactor technologies is in top gear now, which are meant for domestic market as well as for export to third countries.

The two sides are also working towards fast-tracking the GE jet engines deal that was agreed upon in the June visit, after signing of a pact between General Electric and Hindustan Aeronautics Limited for the manufacture of GE F-414 jet engines in India for the Hindustan Aeronautics Limited Light Combat Aircraft Mk 2. After the US Congress last week approved the deal that will enable a higher level of transfer of US jet engine technology

than ever, the two sides are working to expedite the conclusion of this deal.

Besides the

"Security of Supply arrangement" and a "Reciprocal Defense Procurement agree-After India conveyed its

plans to procure General Atomics MO-9B HALE UAVs highly powerful drones — the two sides are discussing a plan that General Atomics will also establish a Comprehensive Global MRO facility. A concrete announcement is expected during the visit as well. The two sides are also work-

ing towards announcing academic programmes tailored for Indian students, where STEM courses will be offered for a year-long Master's degree with

a specialisation in a particular industry. After the programme, the students will have the option of staying in the US for up to three years and work there.

Washington and New Delhi, which have differed on their criticism of the Russian invasion of Ukraine, are also considering sending in joint aid to Ukraine.

India has so far sent in about 100 tons of humanitarian aid, which included essential medicines, medical equipment, blankets, tents, food, and the latest tranche was delivered by the Indian ambassador in Kyiv to Zaporizhzhia (where the nuclear plant is located) last month.

While Washington has so far sent in lethal weapons and India has only sent humanitarian aid, a joint humanitarian aid is being considered as a message to Moscow. But the proposal is yet to be finalised.

Tender Cell, Corporate Office

CWC, New Delhi

G-20 Leaders' Summits – contexts & agendas

MUKESH JAGOTA takes a look at the origin and evolution of G20 as New Delhi is set to host the 18th Leaders' Summit.

The Group of Twenty (G20) was formed in 1999 in response to the Asian financial crisis of 1997-1998. The crisis highlighted the need for a more inclusive forum for international economic cooperation, as the G7, the main forum for such cooperation at the time, did not include many of the emerging economies that were

most affected by the crisis. The G20 was initially set up as a forum for finance ministers and central bank governors of 19 major economies (19 countries plus the EU). In the wake of the 2008 global financial crisis, the G20 was elevated to the level of heads of state/government. The first G20 Summit of heads of state/govt was held in Washington DC in Nov 2008.

The G-20 has played a crucial role in coordinating a global response to

2012: LOS CABOS

growth & jobs

generate quality jobs

2013: Group agrees to reform

International Monetary Fund

2015: Antalya meet focuses on

trade and globalization

and innovation

COVID-19 pandemic

from COVID-19 pandemic

2016: Hangzhou meet focuses on

infrastructure and inclusive growth

2014: Brisbane summit focuses on

वस्येव कुटुम्बकम

Ways to fight youth unemployment and

addressing terrorism and climate change

2017: Hamburg summit gives priority to

2018: Buenos Aires meet finds climate

change and digital economy on agenda

2019: Osaka meet underlines free trade

2020: Riyadh meet postponed due to

2021: Rome summit focuses on recovery

the 2008-2009 financial crisis. Member countries implemented fiscal stimulus packages and coordinated monetary policies to stabilise the global economy. As the crisis had started from the financial sector, G-20 has implemented reforms through the Basel III framework. The reforms were towards strengthening banks' capital and liquidity requirements. The G-20 has repeatedly pledged to resist protectionism and promote free and open trade.

2022: G-20 Summit in Bali was held in the shadow of Russia-Ukraine conflict. The differences over the war, which came at a time when the global economic recovery post-COVID was still fragile, dominated the proceedings. The final communique talked of coordinated actions to advance an agenda for a strong, inclusive and resilient global recovery

and sustainable development that

delivers jobs and growth.

2023: G-20 Summit in Delhi on September 9-10 is the 18th such meeting of heads of government of the grouping. Theme of India's G-20 presidency is "Vasudhaiva Kutumbakam " or "One Earth -One Family". It also spotlights LiFE (Lifestyle for Environment) with its associated, environmentally sustainable and responsible choices. As the Russia-Ukraine conflict continues. it will cast a shadow on deliberations here too. Chinese president Xi Jinping has decided not to attend. Russian President Vladimir Putin will also be absent. **During India's presidency of G-20** in the last one year, new initiatives like Startup 20, Space and

cooperation on science and

technology have been launched.

Here are the key events in the

1997-1998: Asian financial crisis

G20 history:

1999: First meeting of the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors in

2008: Global financial crisis

2008: First G20 Summit of Heads of State/Government in Washington, D.C. Key achievements: Common principles for reforming global financial markets and an action plan; Reforms of international financial institutions (IFIs).

2009: LONDON

\$5-trillion stimulus to the world economy; **\$1-trillion** in extra resources to the IMF; Resolve to strengthen national and global institutions for better regulation financial markets and institutions.

2009: PITTSBURGH, USA

G20 officially designated became "the premier forum for international economic co-operation".

Advanced economies agree to cut deficits in half by 2013, & put debt loads on a stable or downward path by 2016.

2010: TORONTO

2010: SEOUL 'Seoul Development Consensus for

Shared Growth' achieved **2011: CANNES**

system; Agricultural Market Information System.

Reform of the international monetary

Xi not attending makes Biden 'disappointed'

PRESS TRUST OF INDIA Washington, September 4

US PRESIDENT JOE Biden has said that he is looking forward to his trip to India this week, but is 'disappointed' that his Chinese counterpart Xi Jinping will not attend the G20 Summit in New Delhi.

Biden will travel to India on September 7 to participate in the G20 Summit and will have a bilateral meeting with Prime Minister Narendra Modi on September 8 on the sidelines of the historic meeting, the White House announced on Friday.

In its capacity as the current president of G20, India is hosting the annual summit of the influential grouping in New Delhi on September 9 and 10. Ahead of his trip, reporters asked Biden on Sunday whether he was looking forward to his visits to India and Vietnam. "Yes, I am," Biden replied. He expressed his disappointment over President Xi

summit in New Delhi. "I am disappointed, but I am going to get to see him," Biden said in response to a question. Biden, along with more than

of China not attending the

two dozen world leaders, is scheduled to attend the G20 Summit in New Delhi that is being hosted by Prime Minister Modi.

Absence of Xi deepens chill in India-China relations

New Delhi, September 4

SHUBHAJIT ROY

CHINESE PRESIDENT XI Jinping is not going to attend the G20 summit in New Delhi on September 9 and 10 — in what is going to be the most conspicuous and telling absence from the summit. The Chinese Foreign Ministry announced

Monday that Chinese Premier Li Qiang will attend the summit. Xi, who has been China's President for a decade

now, is going to miss the G20 summit for the second time. But the last time he skipped this important forum was in 2021, when COVID-19 pandemic was still at its peak, and the Chinese government's hard"Zero COVID policy" had prevented him from going overseas. In fact, he had not trav-

elled during the pandemic at all.



This time, therefore, his absence sends stronger political messages given that the G20 is considered the world's "premier economic forum." It came into being at the leaders' level during the international financial crisis in 2008

economies gather and brainstorm on the future. That the topmost leader of the world's second-

effectively creating a space for the world's top

largest economy is absent at the "premier economic forum" is significant. The other noteworthy absence that continues for the second year in a row is the absence of Russian President Vladimir Putin, who is waging a war in Ukraine since February 2022. His absence in the Bali summit in November 2022 will be repeated in Delhi as well.

Xi's absence also comes at a time when India, as the host of the G20 summit and the President of the G20 process for the current year, is in a strained relationship with China.

The Indian government has repeatedly linked the border standoff in eastern Ladakh for the last three years — in which 20 Indian soldiers and at least four Chinese troops were killed in Galwan with the state of the relationship, and has said very clearly that it has impacted bilateral ties. External Affairs minister S Jaishankar, in fact, is on record as saying that the situation is "abnormal".

Prime Minister Narendra Modi, in his second face-to-face conversation with Xi, had last month conveyed India's concerns to the Chinese President. The Indian government had even said that the two leaders had directed the officials to expeditious disengagement but the Chinese did not say so in their readout of the meeting.



SEA TV NETWORK LTD. Regd. Office: 148, MANAS NAGAR, SHAHGANJ, AGRA-282010 Tel: +91-562-4036666 Fax: +91-562-4036666 Website: www.seatvnetwork.com, CIN: L92132UP2004PLC028650

NOTICE OF 19™ ANNUAL GENERAL MEETING & E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Saturday, September 30th, 2023 at 03:15 P.M. Indian Standard Time ("IST"), through ideo Conferencing/ other Audio Visual Means Facility in compliance with all the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act"), the rules made there under and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and read with all circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") permitted to convening the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC") to transact the business mentioned in the Notice of AGM without the physical presence of the shareholders at the common venue.

In compliance with the aforesaid circular, the AGM notice and the Annual Report of the company for the Financial year 2022-2023 will be sent by email to those shareholders whose email Id is registered with the company/Registrar and share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited/Depository Participants. The said Annual Report including the notice of AGM is also available on the website of the company at www.seatynetwork.com, and on the website of M/s Link Intime India Private Limited https://instavote.linkintime.co.in and on the website of the stock exchange i.e. BSE Limited at

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules") and as per Regulation 44 (1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with the Stock Exchanges, the Company is providing electronic voting ("e-Voting") facility to members to enable them to cast their votes on all the resolutions as set out in the notice of AGM by using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (i.e. remote e voting). The company will also provide the facility of e voting to shareholders during the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting. The company has entered into an arrangement with Link Intime for providing the remote e-voting and e-voting during an AGM.

in terms of section 91 of the act, rules made thereunder and regulations 42 of the SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing regulation) that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 23rd September 2023 to Saturday, 30th September 2023 (both days inclusive) for the purpose of the said AGM.

scrutinise the e-voting process in fair and transparent manner. The results of voting on the esolutions set out in the Notice of the AGM will be declared with 48 hours from the conclusion of the AGM. The results so declared along with the Scrutinizer's report shall be placed on the Company's website www.seatvnetwork.com and Link Intime's website https://instavote.linkintime.co.in. In case shareholders/ members have any queries regarding e-voting, they may refer the Frequently

The Company has appointed Mr. Amit Gupta, Practicing Company Secretary as the scrutiniser to

Asked Questions ('FAQs') and InstaVote e-ing manual available at https://instavote.linkintime.co.in under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022-4918 By Order of the Board of Directors

Place: Agra Date: 05[™] September, 2023

of SEA TV NETWORK LTD Sd/- KARISHMA JAIN (Company Secretary & Compliance officer)

PUBLIC NOTICE FOR INVITING OBJECTIONS REGARDING REVISION OF LAYOUT PLAN FOR THE PROJECT NAMED "THE NATION" LOCATED AT SECTOR 95. GURUGRAM BEING DEVELOPED BY M/S JMS INFRA REALITY PVT. LTD. It is for the information of allottees of Project "The Nation" being developed by the promote

M/s JMS Infra Reality Pvt. Ltd. The project was earlier registered on 02.02.2023 with Haryana Real Estate Regulatory Authority, Gurugram vide Registration No. 36 of 2023. It is further informed that the Director, Town and Country Planning Department has approved the revised layout plan vide Drawing No. 9275 dated 26.05.2023 as well as the approval for additional license bearing no. 111 of 2023 dated 25.05.2023 for 3.34375 acres in addition to license no. 11 of 2022 dated 02.02.2022 and license no. 04 of 2023 dated 06.01.2023 after inviting objections from all concerned allottees through newspaper as well as by sending letters through registered post and after consideration thereof has approved the revised layout plan and thereafter the promoters have approached the Authority for registration of the additional area i.e., 3.34375 acres.

As per the provisions of Section 14(2)(II) of the Real Estate Development and Regulation Act, 2016 any alteration or addition in the sanctioned plan within the project requires writter consent of at least two third of the allottees. The promoter has submitted the written consent of 187 allottees out of 250 which is more than two third of the total number of allottees Further, the promoter, M/s JMS Infra Reality Pvt. Ltd. has obtained funding from Kautilya

Real Estate Fund, by way of issuance of non-convertible debentures aggregating up to INR 105,00,00,000/- for the construction, development and completion of the project. In this regard, the promoter has appointed IDBI Trusteeship Services Ltd. as the debenture trustee to act for the benefit and on behalf of Kautilya Real Estate Fund. The promoter has created a mortgage on all units and project land and all the receivables arising from i ncluding any sale proceeds from any allottees in favour of Debenture Trustee The relevant plans, consent, and documents of application are available in the office of the

Haryana Real Estate Regulatory Authority, Gurugram which can be seen by any concerned on any working day during office hours i.e., 9.00 a.m. to 5.00 p.m. up to 11.09.2023 till 10:00 am for filing of objections, if any. Anyone concerned having any objection w.r.t the consent given by them, may appear before the authority in person on 11.09.2023 at 11:00 am and register his/her objections thereto. Given under the approval of the Authority and its seal.

Administrative Officer (Admn.) Haryana Real Estate Regulatory Authority, Gurugram Dated: 04.09.2023



Place: New Delhi

Date: 02.09.2023

Hero MotoCorp Limited CIN: L35911DL1984PLC017354, The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Ma Vasant Kunj - Phase-II, New Delhi - 110070 Phone No. 011-46044220 | Fax No. 011-46044399 E-mail: secretarialho@heromotocorp.com, Website: www.heromotocorp.com

Distinctive Nos.

Public Notice for Issue of Duplicate Share Certificates Members of the general public and existing shareholders of Hero MotoCorp

Ltd. ('Company') are hereby informed that the Original Share Certificates, detail: of which are given hereunder have been reported lost/misplaced/stolen/not received and that pursuant to requests received from concerned shareholders, the Company intends to issue duplicate share certificates in lieu of the said original Share Certificates (Face Value Rs.2/-) in their favour Shareholders

rono ivo.	Name	Value	Distinctive 1103.	No.(s)	Shares
HML0061980	NILA BHATT JAYDEEP BHATT	FV.10/-	12451265-12451284 16187183-16187187 20782123-20782147	138103 230104 338131	20 05 25
HML0118302	JEETENDRA J SHAH	FV.10/-	3185316-3185365	63716	50
HML0136950	SHIKHA JAIN	FV.10/-	19933039-19933058 19933059-19933063 35192405-35192429	307701 307702 413004	20 05 25
		FV.2/-	165460991-165461240	524691	250
HML0012894	MADHUSUDHAN ASARAM SAMDANI SHIRISH ASARAM SAMDANI	FV.10/-	645566-645615	12921	50
HML0154922	V RADHA	FV.10/-	4111016-4111065 34042743-34042792	82230 388752	50 50
HML0100134	VINITA VIVEK BALWALLY	FV.10/-	15071702-15071721 18597238-18597242 32515859-32515883	162223 257193 358273	20 05 25
HML0068388	NITEEN BHAGWAT	FV.2/-	46579711-46579960 165952546-165952915	511922 525513	250 370

Any person having objection to issue of duplicate Share Certificates, as mentioned herein above, may submit the same, in writing, with the Company marked to the 'Secretarial Department' at its Registered Office or send an email at secretarialho@heromotocorp.com within 7 days from the date of publication of this Notice. In the meanwhile, members of the public are hereby cautioned against dealing in the above mentioned Share Certificates. For Hero MotoCorp Ltd.

> Place: Kanpur **Dhiraj Kapoor** Date: 04.09.2023 Company Secretary & Compliance Officer

> > New Delhi

Certificate No. of

RTCL LIMITED

CIN No.: L16003UP1994PLC016225 Registered Office: 8/226, Second Floor, SGM Plaza, Arya Nagar, Kanpur UP 208002 Corporate Office: 6926, Jaipuria Mills, Clock Tower, Subzi Mandi, Delhi-110007 Website: www.rtcllimited.in E-mail: rgc.secretarial@gmail.com Tel. No.: 011-23852583, Fax No.: 011-23852666

NOTICE OF 29" ANNUAL GENERAL MEETING (AGM),

REMOTE EVOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE The 29th Annual General Meeting (AGM) of the members of RTCL Limited will

Notice is hereby given that:

be held on Saturday, 30th September, 2023at 11.00 A.M., at the Registered office of the Company situated at 8/226, Second Floor, SGM Plaza Arya Nagar Kanpur, Uttar Pradesh 208002 to transact the Ordinary and Special Businesses set out in the Notice of the AGM dated 26th, August, 2023. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24th September, 2023 to 30th September, 2023 (both days

Register of members of the Company are updated after giving effect to all valid share transfers in physical form lodged with the Company/Registrar and Share

Transfer Agent i.e. M/s Abhipra Capital Limited, Abhipra Complex, Dilkhush Industrial Area, A - 387, G.T. Karnal Road, Azadpur, Delhi-110033 Electronic Copies of the Notice of the AGM, Annual Report for 2022-2023 and the Attendance Slip along with the Proxy Form have been sent to all the

Participant(s)/RTA. The Notice of AGM and the Annual Report are also available on the Company's Website www.rtcllimited.in and also available at the Registered Office of the Company for inspection during business hours on any working days (except on

members via Email id- registered with the Company/ Depositary

Public Holidays) prior to the date of 29th Annual General Meeting i.e. Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and amendment thereof, the Company is pleased to provide its members the electronic facility (remote e-voting) for transacting all the items of business mentioned in the notice through National Securities Depository Limited (NSDL). The Remote e-voting period will commence from 09:00 A.M. (IST) on

Wednesday, 27th September, 2023 and ends on 05:00 PM (IST) on Friday, 29th

September, 2023. Members may cast their vote by accessing the website

www.evoting.nsdl.com by following the instructions given in Note No. 18 of the During the Remote E-Voting period, Shareholders/Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off date i.e. 23" September, 2023 may cast their vote electronically by Remote E-Voting. The Voting module shall be disabled by NSDL after the said period. Once the vote on resolution is cast by Member, the same cannot be modified

The voting rights shall be as per the number of shares held by the members as on Saturday, 23rd September, 2023 (Cut-Off date). Members are eligible to caste vote electronically only if they are holding shares as on that date.

9. The Company has also provided the Voting facility to the members who don't have access to e-voting facility, they may send their assent or dissent in writing on the Postal Ballot Form attached with Annual Report for the Financial Year 2022-2023, but such facility is available only at the AGM.

The Procedure of E-voting is available in the Notice of AGM. In case of any queries pertaining to e-voting, you may refer to Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com or call at Toll Free No. 1800-1020-990 to the Company Registrar M/s Abhipra Capital Limited

 In the event Members Cast his/her votes through both processes i.e. Remote evoting and Ballot Form, the votes in the electronic system would be considered and the Votes of Ballot Form would be ignored.

12. The entry to the Annual General Meeting (AGM) will be regulated by Attendance Slips, which is attached with the Notice of the AGM, Members are requested to bring duly signed Attendance slip to the meeting and hand it over at the entrance. 13.A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote

through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM. 14. The Scrutinizer will submit his final report after the conclusion of voting at the Annual General Meeting but not later than Closing of the business hours on

1st October, 2023. 15. The Chairman of the meeting shall announce the result of voting on the resolutions taken up at 29th Annual General Meeting on or after the submission

of final Report by the Scrutinizer.

(Ajay Kumar Jain) Director DIN:00043349

By Order of the Board

financialen epan.in

प्रदेश - S

नवंबर में होगा विश्व के सबसे ऊंचे चंद्रोदय मंदिर का उद्घाटन

वृंदावन, हिन्दुस्तान संवाद। विश्व क सबसे जन्मे मंदिर वृंदावन चंद्रोदन का दक्षिण व्यक्ति वनकर तैकार हो गया है। नर्वबर में इसका तक्त हो गये है। नवक्त में इसका उद्घाटन किया व्यवेगा। मुख्यमंत्री सोगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन कर सकते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी बुलावा भेजा जायेगा। 210 मीटर जीचे मीदर की चियोगता यह रहेगी कि इसका शिखर ठाकुर मदनबोहन मंदिर और फ्रंट ठाकुर शैंधिन्द देव मंदिर की सरह विस्त्रेगा।

छटीकरा रोड पर बन रहें चंडीदय मंदिर परियोजना का उद्धाटन मार्च 2014 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मख्यमंत्री अखिलेश चारव ने किया था। 16 नवंबर 2014 की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने



 पीएम और राष्ट्रपति को भी बलावा मेजा जाएगा मंदिर में दिखेगी सप्त देवालयों की सलक

मंदिर को आधारशिला रखी थी। पूर्व मादर को जायातररात रखा था। दूध में मॉर्सर के निर्माण की शैली खजुरातों को तर्ज पर को जा रही थी, व्यनुभाव के गाज पर को जा रहा था, रुपिकन मूल व्यक्तिकृत्य हिंबाइन को 2019 और 2022 में करता गया। अंत्र नागर और आधुनिक शैली में इसे बनाया जा रहा है। करीब 700 करोड़ की लागत से बन रहे मंदिर को गौड़ीय वैष्णव परम्परा के मदेनजर बनावा जानेगा। मंदिर का निर्माण 2024 तक



पर्ण होना था, लेकिन डिजाइन में बदलास के कारण 2029 में बनकर तैयार होने की सम्माचना है। जिसमें मंदिर का शिखर (गुम्बद) वृंदावन के सबसे पहले बने देवालय ठाकर

गोविन्ददेव मंदिर के जैसा होगा। इसको डिजाइन भी जारी कर दी गई है।

अब तक बनकर तैयार हुए दक्षिण ब्लॉफ की ठांचाई 65 मीटर, लम्बाई 75 मीटर और चौड़ाई 50

ज्ञानवापी प्रकरण

वारणभी, विसं । जन्मपी परिसर में वैज्ञानिक सर्वे को मियाद आठ हफ्ते और बढ़ाने के लिए सोमवार को एएसआई की

और में जिला जज जी. अजब कथा

विश्वेश की अञ्चलन में प्रार्थना पव टारिवल क्तिया नगाः इस पर अञ्चल इतिकस्थि। मसाजिद कमेटी ने लिखित आपत्ति दर्ज

करहें हैं। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए आठ सितंबर की दिश्व तब की है।

अवैध टेलीफोन

एक्सचेंज चला रहे

गिरोह का खुलासा

लखनकः। यूपी एटीएस ने रविवार को मिर्जपुर म आजमनद्द के अलग-अलग बान देशी में छाप मारकर अवैध टेलीपरेन

एक्सचेन चला रहे स्पित का पर्यापाल

किया। छापे में तह अधिकृष्ट्यें की गिरफ्तर किया गया। इस दौरान सिम चौत्रस के अलाया बड़ी मात्र में भारतीय व नेपाली

हुए हैं। यह गिरोह अंतरीपूर्विय गेटवे को बारपाय करते हुए इंटरनेट कॉल को स्वेक्त वीह्य कॉल में परिवर्तित कर कॉलिन करता था। एटीएस को बारपायी, प्रकरराज एवं

आजमना प्रील्ड इक्से ने मिर्जपर के

क्षांत्रममञ्जू करण्ड (वध्य न स्थापुर के कीतवाली तथा अजम्मद्र के कातवाली, सरागमीर, निजमाबाद न सिधारी धाना संज्ञों में जिला पुलिस के सहस्रीय से छाड़

गरकर नदीम अहमद, दीवान बाल खां

मुन्ता कुरैशी, शमीम, कलीम आत्मद और

लैक्टॉप व अन्य उपकरण बगमद

मंदिर हॉल में मनेगी पहली जन्माष्ट्रमी

दावन संदोदय मंदिर में पहली माध्यी का आग्रेजन किया जातेगा तिन्मारणी का आधीरन किया जातीय। मेरिट में मीसान दुक्ता को सुन्दर और मनमोडक पूर्ति की स्थापन की पूर्वती है। 3750 स्टब्वारन मीटर में बने मीटर होता में पास मार 2500 महामू की स्थापन मेरित में पास मार 2500 महामू की स्थापन मेरित मेरित मार की मीटर मेरित मेरित

मीटर है। जन संपर्क विभाग के उत्तर प्रदेश हें ड अनंत प्रभु ने बताया कि 26 नवंबर की दक्षिण ब्लॉक के

एएसआईसर्वेकीमियादबढ़ानेपर आठको सुनवाई

जिला जज के आरोश पर जिला चार

जनत जेज के अद्देश स्ट स्वाच चार अगरत में वृज्जाना को छोड़कर जानवामी परिसार में एएसआई का चैतानिक सर्वेक्टम चल का है। अञ्चलत में वे सितम्बर को सर्वे रिपोर्ट मीपनी थी। गत श्रानिवार को

वायरल

बाराबंकी।नी दिन पहले प्रभारी मंत्री

के साथ महादेवा दर्शन पूजन करने गए राज्यमंत्री सतील चन्द्र आवास्तव का एक वीडियो वायरल हुआ। जिसमें वार महादेवा मंदिर में शिव्हिंत्य के पास

पूज के जाद हाथ भी रहे थे। वापरल वीडियो की गिन्दुस्तान पृष्टि नहीं करता है। इस मामले में राज्यमंत्री बैकफुट पर आ गए और कहा कि मैं स्वप्न में

भी सनातनी आस्था के अनाहर की

भा संपातना आस्था के अपादर का स्टेच नहीं सकता। इसे लेकर अगर किसी की पीड़ा पहुंची तो मैं क्षमाजधी हूं। उत्तलेखनीय है कि नी दिन पहले

बाइग्रस्त इलाकों का निरोधण करने प्रमारी मंत्री जितिन प्रसाद आए हुए

हमले की जांच में एसटीएफ भी लगी

पुजा अनुमति समेत तीन मामलों पर सुनवाई टली

क्षांनवाची चरिनार से जुड़े तीन मामली में सुनवाई लोगकार को अधिकताओं के हडतात के करण्य देन गई। निकित जान मीरियर डिवीजन/फार टैक कोर्ट की अधातन में हान्तवाधी में सकता का अधिकत्त का सामित्र अधातन में हान्तवाधी में सकता का अधिकत्त का हान्तवाधी तथा दुवा-अनुमंदि मोनने की अजी पर सुनवाई आ। 11 सितंबर को होगी।

शिवलिंग के पास हाथ धोने

पर राज्यमंत्री ने माफी मांगी

मंदिर के टॉप से दरबीन द्वारा देख सकेंगे ताज

की इम्पारत बर्मणी। 70 मीजाना महिन की ट्रीम भी दुर्गीम डास आजमहाल को देखा जा समेका मार्थ पुत्र इस देखा पारणे। महिर के आउड़ फालेट पर एमस्ट्रम, दिजीय कार पर मिट्ट, नृतीय तेट पर बील थन पाट का समहत्वाय और जाड़िया वीटिया मेल्टी होगी। 13 पुळा हमां का के प्रमुख 15 वन और प्रकार मी बनावी जायेंगे दिसमय मी घरण सीला, मिरिराज प्रतिसमय मी घरण सीला, मिरिराज पात सीला स्मेतन कान्सा की प्रमुख सीलाण दिखेगी। की हमारत बनेगी। 70 महिला मंदि

तदघाटन के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की निमंत्रण दिया जायेगा।

जिला जाजागारीजे प्रथम को अराला में

मुनवर्ड इंडे उसमें एएसआई ने ऑधवाता म सुनवर्ड इंडे उसमें एएसआई ने ऑधवाता अमित श्रीवास्तव के जीए बताब कि 21 जुलाई को जिला जन की अयलत

ने चार अपस्त तक वैज्ञानिक समें की रिपोर्ट देने का आदेश दिख था

> शिवलिंग के पास प्रम के बाद हाय घो रहे थे

थे। राज्यमंत्री भी उनके साथ बाह प्रस्त इत्तकों में गए। उसके बाद दोनी महिला ने लोधेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। पूजन के बाद राज्यमंत्री का एक बोहियो रिक्वार को

वाबरल होने लगा जिसमें का शिवस्ति। के सम्बंध हाथ को रहे हैं। इसे लेकर

मोमकार को राज्यमंत्री ने अपना बसान

जारी किया। जिसमें कहा कि मैं खुद स्नातनी हूं। भगवान किय मेरे अराध्य हैं। सनातन आस्था के अनादर की

बात में सपने में नहीं सोच सकता।

फिर भी अगर किसी को पीड़ा पहुंची

े एकड क्षेत्रफल में केवल मंदिर

लक्षन्छ में सीमवार को अध्योजित कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारियों को सम्मन्तित करते उध मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मेर्यों।

गांव भी बनेंगे स्मार्ट: केशव

तस्त्रनाः, विशेष संवादयाता । उप मुख्यमत्री केमव प्रसाद मीव ने सीमवार को खेड विचारन अधिकारियों के एक दिवसीय समानतः कर उद्धादन करते हुए कहा कि गांवी के विकास के बिना प्रदेश वह ये का विकास नहीं हो सकता है। उसरे सिदों की तरह स्माण कानों का काम करना होगा हुट कहा भी दन विकास गांवी को विकास की मुख्यायर से जोड़ें। इस गीक घर 10 खंड विकास अधिकारियों को सम्माणित किया गया। शोकार की हिएस गांवी क्रीकटान में अधीकारियों कर कार्यमार में उपमुख्याय ने काह कि प्रसानती नरेड बोदों ने यो करोड़ तक्ष्मवारी दीवियां (महिताओं) क्याने तक्ष्म रखा है।

स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की जांच करेगी केंद्रीय टीम

त्तवन्त्रका र स्मार्ट प्रयोग्न पेटर में जा रही जिल्लाकों आलकर मनन विदेश, क्रमेवाल कटने के बाद नहीं जुड़ने तथा अन्य की लोग के तिए कर्जा गंजनाव प्रतान स्वावर की टीम मानताव को कुपी बहुत रही है। टीम के सदस्य विजयी किंद्रसम् क्यमिशी के सार्वश्चेत्र में जावनर प्रीवेश स्मार्ट मीटर वाले उपनेवातओं से मिनेती। उपनेवाराओं का फीड़वीक लेने के बाद टीम 20 निश्चेय तक कार्जी मंत्रांत्रथ मात्रत सरकार को अन्ति विवाद बन्ति होंगा करेगी।

दो लाख से अधिक दे सकेंगे छात्रवृत्ति परीक्षा

लक्कन्द्रम (प्रदेश के 2 लाख से अधिक भाग इस बार नार्टीय अथ पर्व योग्यता अधारित भागपुति योजना परीक्षा 2024–25 में बैठ सकेंगे (योगी सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा तव लामायाँ कोटे के स्थान पर 15 मुना अधिक छात्री के ऑनलाइन आवेदन का लक्ष्य रखा है। केन्द्र सरकार की और से इस बार यूपी के 15 143 सफल छान्ने की योजना का लाभ देने के लिए कोटा निर्धारित किया है। पांच नवंबर को प्रदेश के सभी जिलों में यह परीक्ष प्रश्लावित है।

11 से शुरू होगी अटल विद्यालयों में पढाई

तना है। अटल आवासीय विद्यालयों के परिसर में स्वतकता का विशेष ध्यान

जिलों का गजेटियर नए सिरे से तैयार होगा

लबस्का का जनवादार देशा है पत्री जिली का ला किर से महीदार सेवार करने जा पत्री है। इसमें दिन से मुझी हुई सभी जनकराव्य होंगी। मस्तल, मामकी, सोकाल, प्रमुख धर्मिक स्थात व पेतिहासिका रखत के पत्री होंगी। मस्तल, मोहि विशेषा के बार में जनकादियां होंगी। विशोध सर्विक राजस्य संपर्धात्व के प्रदेश के बार में जिलाविकादार्थी होंगी। विशोध सर्विक राजस्य संपर्धात्व हैं प्रदेश के बार में हमा निकास के स्वार्थ में मिलाविकादार्थी होंगी। विशोध सर्विक राजस्य संपर्धात्व है। राजस्य इस सार मूला 1 भागों में पार्थिय रोजस कार मा है। मानिद्राय में ही जिले के बारे में पूरी और प्रास्तविक जनकादियां मिल बाती है।

बाराबंकी में इमारत गिरी, तीन की मौत

करिसुर (बाराबंकी) । काजीपुर वार्व में सीमकर ठठके तीन महिल्ल मकान अधानक तेज धमारे के स्थाप दह स्था। इसके मनाबे से प्रतिस्त की टीन श्रेष्ठ भी दह गई। मध्ये में नेजी परिश्तर के 14 मोल इस गए। पुनिस्त व एनर्टिशास्प्रफ ने मानबे में दर्श रहेगे को निकारना गुरू किया। दो घावारों की जिला अस्पाता में मीत के महे। यही, गाव पुत्रक का गाव दोमहर को मनाबें से निकारत स्थाप हरें मामनों में 360 को लक्ष्यक दान सेंटर भेजा गया है। पुल्स हमाने के कारगों की

ट्रेड शो से दुनिया में गूंजेगा श्रीराम का नाम

संबन्धका बंदरनेम्हन्त देह गो के जरिए पूरी दुनिया में बीदाम का नाम गूडेगा। 21 में 25 निशंकर के माम ग्रेट मोरावा का बीदाय एकसाते मोरा र मार्ट में होने जा रहे इंटरनेम्हाना देह गो के उपयोजन में प्रभू भी राम में गुड़े संस्थरमारे, प्रध्या जा रहे इंटरनेम्हाना देह गो के उपयोजन में प्रभू भी राम में गुड़े संस्थरमारे, प्रध्या चार प्रदेश मारा में स्थान के लेकर संस्थानिया वस्तुर्वियों काइ, सात साम होगा वाम माम हम्मरिवियों प्राप्त केवार के स्वर्ण में मेरी स्थानक्रियों में मोरा प्रस्तुर्वियों कहा, सात साम ग्रेस स्थान में स्थान वाम माम हम्मरिवियों प्राप्त केवार में स्थान स्थानक्रियों में मोरा प्रस्तुर्वियों केवार केवार में स्थान स्

सनातनधर्मकी आलोचना करारा आधात: महाना

कर ना ना पर क्रिकार दिया है अवति विधानस्य अक्रा स्वीति स्वातक । नाततन पर्य पर विवादित दिव्यक्षे हैं आवति विधानस्य अक्राय स्वीति । मानाव वर्षा करने हैं कि सन्तात्र में नायत्र का नायान नहीं है। राजनीतिक दुविवाद में स्वात्र की आतीक्त्र कारण भारत की व्यवस्य पर आधात है। यह तो किल्ह्रमा साहत्त्र में संस्थार का क्रात्रेण हैं। स्वात्रम में भारत हो हैं में नहीं हैं। इसमें क्रिमी क्रात्र का वर्षात्र में संस्थार का क्रात्रेण हैं। स्वात्रम महाना क्रिमी क्षा के क्षण कि इस तरह की सियास्य कारण औति नहीं है।

ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए 354 निवेश परियोजनाएं तैयार

प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय अगले साल से

■ अर्डेशत खरें लखनक । उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ के निवेश बाले प्रोजेक्ट अब लगने को तैयार हैं। निजी क्षेत्र में सिक्केंक्यालय, अस्पताल, बोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, मेडिकल कालेज, फार्मेसी कालेज फार्मा कालेज व शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है और अगले साल तक यह परियोजनार्य लगनी शुरू हो ज्वारंगी। इनमें अधिकांश ग्रांठड ग्रेकिंग सेरमनी के लिए तैयार हो गई है।

क (लार् तथार हा यह है । इस समय 354 निवेश परियोजनाएं ब्राइंड ब्रेकिंग संस्मनी में शिलान्यास के लिए तैयार हो गई हैं। इनके अरिए S8,706 करी ह कपये का निवेश अब जमीन पर आने लगा है। अधिकांश परियोजनाओं में निवेशकों को जमीन मिल गई है और उन्होंने कच्छा लेकर निर्माण काम शुरू कर दिया है। ग्राउड बेकिन सेरमनो अगले मानि के अंत में बा उक्का के पहले हफ्ते में होनी है। फिल्कन्यास होने के बाद अगले माल जनवरी में यह परिचे जनाएं चास्तविक जनका सं का कराइजाए वास्तावक रूप में चालू हो जाएंगी। न्यू मान्न फ्लोर फिल इटावा में फ्यूचारा फ्लोट 165 करोड़ के निवेश में लगा तरा है। प्लोट 75 करोड़ के न्यारा त लखनऊ में स्कूलबना रहाबीबीडी बूप

58 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रशानत पर नजर आ रहा

नर्द शरू हो रहीं परियोजनाएं एक नजर में

संस्था कंपनी	Drett	uhhae	निवेश
सारव रामुह	गीतमबुद्धनगर	६०० वेड का सुवरस्थानविश्विती हेल्बकेवर	500 केंग्ड
आरएसएस मेडिकल	मथुरा	मन्दी सुपरस्पेणवितिही मेडिकान कालेज व अस्पताल	380
माति कार्यक्षमान	महाराजभावा	मिक्रकर कार्यस	300
वासुदेव विकल	डासी .	रिकत विश्वविद्यालय	40000
स्ट्रकार काइडेशन	शंबनक	मीडकत कालेज विश्वविद्यासय	500
रहमत उल्ला	असी	रिकल विश्वविद्यालय	3000
दाटा देवनासीजी	लखन्छ समेत पुरा प्रदेश	15 रसरकारी अईटीअई को नई मतीनी व तकनीक से लेस करना	4174

का निर्माण चल रहा है।

भीबीही ग्रुप लखनक में 75 करोड कोबोडी पुप लक्षान में 75 करोड़ के निजेश में स्कूल बना रठा है। इसका निमाण को पूर्ण एक छै। इसका निमाण को पूर्ण एक छो। अल्ल मीडिनिक संस्थाएं फटेखावाद, शाहजाइंप्यू, बरेली, आजनगड़ व कुशीनगर में महत्त्व अब रही हैं। इन सब रही हैं। इन सब पर कुल 15 करोड़ रुपये का विकेश हो रहा है। विकास सिंदिक समाज सिंदिक से साम है। विकास सिंदक सिंदक से साम है। विकास सिंदक सिंदक से साम है। विकास सिंदक में 125 करोड़ रुपये से स्कल बना

रता है। मैनपुरी, फिरोजबाद में एक-एक व आनरा में रीन स्कित्त डवलमॉट मेंटर खुलने हैं।इन सब निवेशकों को अधीन ल मां है और निर्माण भी परा हो नग है अब केपल संबंद्धता की प्रक्रिया स रही है। इन पांच परियोजनाओं र लगत 12 करोड़ से ज्यादा की है।

'भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा तो प्राणप्रविष्टाके लिए अफसर

मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री गोगी आदित्यनाथ अहम बैठक करेंगे। अयोध्या के कविष्टन य जिलाधिकारों को भी दिल्ली बुलाय गुगा है। राममंदिर प्राण प्रशिन्दा समारीह और असर में हो रहे जिन्हाम कार्यों की ममीश नात में से वह विकास कार्यों का अमादा के लिए उन्हें प्रधानमंत्री जार्यालय में मूलाया गया है। देर राम देनों अफसर बेटक के लिए रचाना भी हो गए। टीएम बाउक के लिए (चाना था ही गए। डायूम निर्तास कुमार ने बताया, यह अपनी सहर को यहानी बेटक हैं। जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिगढ़ी समाधित को आग में रखते हुए प्रधानमंत्री के आगमन, अळालुओं के अगमन, उनके रहने खाने की जगह. यहां चल रहे विकास कार्यों की अबतन वांत को समीका इसमें होगाँ।

कारटेक्स म तनात महिला हेड कारटेक्स पर साथू एक्सफ्रेस ट्रेन में हुए हमले की जांच में एसटीएफ की भी लगा जिला हुए इमल को जाय में एसटाएक की भी लग दिया गया है। यह जानकारी डीजीपी विजय कुमार ने दी। यह सोमवार को केजीएसय के ट्रामा सेंटर में भर्ती महिला हेंड कांस्टेबल के स्वास्थ्य का जायजा लेने पहुंचे थे। मोमबर को ही प्रमुख सचिव वृह संज्ञ प्रसाद और स्मेशल होजों कानून-ज्यसम्बा प्रशांत कुमार भी ट्रामा सेंटर पहुँचे और महिला हेड कांस्टेबल के

रिपपाडी पर हमला प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी ट्रामा सेंटर पहुंचे

हाईकोर्ट हारा ग्रेम घटना का स्वत संज्ञान लेकर रविवार को छुट्टी के दिन सुनवाई किए जाने के बाद कुर व पुनित्त विधान हरकत में आ गया है। . पहिला है ड कॉस्टेंचल के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के बाद ट्रामा सेंटर के बाहर मीडिया कॉर्मकों से बातचीत में स्पेशल डीजी कानून-अवस्था ने प्रमांत कुमार ने कहा कि के स्थारव्य

से फॉर्निशक साइन जुटाए गए हैं, उसके आधार पर जांच चल रही है। अब तक को जांच में किसी तरह के चौन शोषण के साइन नहीं मिले हैं। जांच में पूलिस को कई टीमें लगा हैं।

उनोनि कहा कि इस संबंध मे उनान कहा कि इस सबध म इस्कोर से भी दिशा-निर्देश मिले हैं, उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। विगत 29/30 अनस्त की सुबा करीन चार करो मनकापुर से प्रचागधन जा रही सरयू एक्सप्रेस में अयोध्या रेलचे स्टेशन पर महिला हैड कांस्टेबल गंभीर कम से धानल अवस्था में फिली थीं। उनके नेहरे य मले पर धारदार राधिमार से कई बार

प्रतिभाओं को मिला मौका' लखनक, विशेष संवाददाता। लखनक में अल्पसंख्यक नाग सरकार की नजर में कोई

शक्षक म जन्म प्राविधिक शिक्षा विभाग के लिए कॉनस्ट समारक व कंप्यटर ऑपरेटर के तीर सहायक व कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर 240 अम्मर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी अधिकानाथ ने कहा कि कंप्युटर आदमानाव न कमा कि कप्यूटर महत्त्रकों की भी एक बड़ी भूमिका होती है। आज लोगों को धारणायं उत्तर प्रदेश के लिए बयली हैं। फाएलें अन्न लटकती नहीं हैं। आज प्रदेश ने सुरक्षा और हंज ऑफ लिकिंग च हेंज ऑफ हुईंग बिजनेंस के लक्ष्यों को प्राप्त किया है। केंद्र की परियोजनाओं को ग्राप्त

खरातल पर उतारा है। अब तीन दिन में फाइल फाइनल होनी चाहिए। अपने सीनिवर्स से कंसल्ट करें, पेंडेसी नहीं

भेद नहीं: मुख्यमंत्री

शीपम योगी ने कहा कि सरकार की निमाह एक है, कोई भेद नहीं है और कह है सकका साथ और सकका किकास (आप भी उसी किजन का हिस्सा इन रहे हैं। आपने कीमन परिपोर्धितिस्ते देखर पास किका होगा, तब 37 लाख लांगी ने परीक्षा दी यो। इसमें से मुत्तत्वार अपने स्थान बनाया है जो हमें और बणाई का पात है।

करें क्योंकि पेंडेंसी प्रशासार से जोड़ता है। आज जब प्रशास पर अंकश लगाया गया तथ आग जैसे प्रतिभाश लोगों को स्थान मिल पाया है।

दिल्ली तलब लखनऊ, हिटी । राममीदर की लेकर गुड़

अपना आसपास

एजेंसी कर्मचारियों से कासगंजमें 5 लाखलूटे

कंपनी के एजेंसी संचालक के दो कर्मधारियों से स्वेमवार को देर शाम मधुरा-बरेली श्रद्धवे पर सोनों पुलिस मधुण चरती ठवन पर सार्व पुरास लाइन के पास लूट हो गई। बहुक समार कीन लूटरे 5.30 लाख रूपये भरा बैग लूटर फडार हो गर। एसपी ने पूरे जिले में चेकिन शुरू कर दो। इसके लिए तीन टीमें लखई हैं। आईटीसी कंपनी संचालक के

दो कर्मचारी गोविंद और लोडिंग ई-रिक्शा चालक अभिषेक

से बिक्री से मिले छह लाख रुपने सामने से मजर रहे थे, तभी एक ब्राइक पर सकर तीन लुटेरों ने ई-रिक्शा रुकवाबा (लुटेरों ने इंबियार तानकर कर्मचारिकों से मारपीट कर गोविद के पास रखा रूपवें का बेर लूट लिया। इसके बाद फरार हो गए। कर्मचारियों ने स्वामीरों की मदद से पुलिस को सूचना छै।

हार्डवेयर कारोबारी की गोली लगने से मौत

अलीयह । प्रमुख हार्डवेयर कारोबारी की सोमवार को गेरली लगने से मीत हो गई। कारोबारी ने आत्महत्या का प्रयास किया वा

ने अझमाराना का प्रभाग किया जा उनकी हत्या हुई, में अभी रहस्त है। पुलिस व फर्रेरिक्त टीम ममले की जांच में जुट को है। विष्णपुरी निवासी डाटेवियर कारोबारी व्यक्तिशाल गर्ग की आहंटीआई रोड स्थित औद्योगिक आस्थान में फैक्ट्री है। डोस्लाइन ब्रांड के नाम से वह हाईवेयर

उत्पाद तैयार करते हैं। व्यापार में उनके पार्टनर पथन गर्म भी हैं। कारीबारी के प्रदेश के साथ में ही विष्णुपुरी में चार मॅनिला कोटी बनों है।

गए हैं। पार्टनर व उनका परिवार मी कोती के आधे धार में खता ना काठा के आप मान में खता है। घटना दोपहर की है। मोली लगने से घायल कारोबारी हास्पिटल में धर्ती करावा गया, नहां उसे मत घोषित कर दिया गया।

प्रॉपर्टी के लिए मां-बेटी की हत्या निगत । धाना बोद्ध के कैमधन गांव में घोमधार को तेरहवीं है

अलागान् । चन्त्र चांड में कम्पणता चन्न में सम्बन्ध सार स्थान मेरियन में मुक्तेशों और गीद तो बोटी डिप्सन को लाली-डोडी से पीट-मीदकर इत्या कर दी नई। इत्या के पीडी प्रीपर्टी मेरियरि का विसाय है। मुक्ता के देवर सहित साद पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, ALLAHABAD

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, ALLAHABAD
9/2A, PANNA LAL ROAD, ALLAHABAD-2110/2
TA. No. 10 of 2016
Summons to the parties under section 19 of the Recovery of Debts and Bankuptoy Act, 1980 read with Pulser 15 of Debts Recovery Tribunal (Procedure) Ruises, 1980.
CA No 226 of 2009 Sec 5 gending in Debts Recovery Tribunal (Allahabat Section) Tribunal Lucknow, in own transferred to Debts Recovery Tribunal, Allahabat and registered se TA No. 10 of 2016 before the Tribunal

Batween Bank of Baroda (o-Vijaya) Versus Mis Vimal Carpet and others To,

To.

1. Mis Venal Curpet. 1812S Purani Wandt, Teigan, Agrin (U.P.).
Brough its Preprieter Learns Sharma.

2. Leans Sharma Did Stic Challod Sharma. Resident of 1812S Parani
March Tagani, Agrin U.S. Amaniath Resident of Mandi Estate.

3. SH Rosen Yant Son of Ski Amaniath Resident of Mandi Estate.
Bergani, Agric (U.S.).

4. Shi Santeen Raza Son of Ski Amaniath Resident of Mandi Estate.

Sharpa, Associa March, Agri (U.P.).

5. Shi Wanteen Raza Son of Ski Amaniath Resident of 24/338 Nages

Razal March Son of Ski Mineraddin Resident of 24/338 Nages


Agricant Dishardari Connell Mr.

Sant Mara Garjan Agra
Approximation Connel for Debts Recovery Tribunal,
Luchrow, the above meritomed CATR-Excellent has been
taked for appearance and futter proceedings in this Tribunal
of Allesbad on 10.11,202 at 10.20 AM. You may appear
before his Tribunal on that date letter in person or through
Legal Practicisms duly appointed by you for his purpose,
Take Notice that in detail of your appearance on the date
fored, the case will be hard or appearance on the date
fored, the case will be hard or appearance on the date
Registran.

Debis Recovery Tribunal, Allahabad

In matitute invites the pre-bid offers along with the detailed bits between the conditions, through Expression of Interest for installation & commissioning of Next Generation of Sequencing Facility under Public Private partnership (PPP) basis in the Generic Lab Of Department of Biochemistry of the Institute. All Lethnically & financially & financially sound service providers may submit their detailed offers along with technical Interacture / product specification of establishment of the lab in favour of the Director, Dr. RMUMS, Viohuti Khand, Gernit Magnz, Lucknown on o before D4 October, 2023 at 850 Cell, G5, Administrative Block of the Institute.

For more details, please contact HOD, Biochemistry. The Director reserves the right to occept or reject any or all pre-bid offers without assigning any reason thereof.



आवश्यक सूवना

चिनांक 27 विकास्त्र से 26 आयुत्तर 2023 एक प्रतितिन प्रातः :10.00 मणे से स्त्री 12.00 बजे तक शिल्पप्राम में ताल कार्नियत एवं नाईट बाजार का अवोजन किया जा एक हैं, जिसमें पत्रत अवधि हेतु स्थान-धान एवं शिल्पियों से निम्मालितिक स्वति निर्धारित क्षेत्र पत्र अजिल्याल अवेशन ताला महिलायों से पेम्साइट (www.tajmahotsw.org) में माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं :-

2- शिल्पी स्टॉल

प्रतेकत क्टॉली का चयन गरित समिति द्वारा किया जायेगा एवं समिति व हर, ताल शेर आपत पूरमाप 0562-22

SEA TV NETWORK LTD. SER/TV



SEA TV NETWORK LTD.

Regd. Office: 148, MANAS NAGAR, SHAHGANJ, AGRA-282010

Tel: +91-562-4036666 Fax: +91-562-4036666

Website: www.seatvnetwork.com CIN: L92132UP2004PLC028650

NOTICE OF 19TH ANNUAL GENERAL MEETING & E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Saturday, September 30th, 2023 at 03:15 P.M. Indian Standard Time ("IST"), through Video Conferencing/ other Audio Visual Means Facility in compliance with all the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act"), the rules made there under and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and read with all circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") permitted to convening the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC") to transact the business mentioned in the Notice of AGM without the physical presence of the shareholders at the common venue.

In compliance with the aforesaid circular, the AGM notice and the Annual Report of the company for the Financial year 2022-2023 will be sent by email to those shareholders whose email Id is registered with the company/Registrar and share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited/Depository Participants. The said Annual Report including the notice of AGM is also available on the website of the company at www.seatvnetwork.com, and on the website of M/s Link Intime India Private Limited https://instavote.linkintime.co.in and on the website of the stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules") and as per Regulation 44 (1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with the Stock Exchanges, the Company is providing electronic voting ("e-Voting") facility to members to enable them to cast their votes on all the resolutions as set out in the notice of AGM by using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (i.e. remote e voting). The company will also provide the facility of e voting to shareholders during the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting. The company has entered into an arrangement with Link Intime for providing the remote e-voting and e-voting during an AGM.

In terms of section 91 of the act, rules made thereunder and regulations 42 of the SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing regulation) that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 23rd September 2023 to Saturday, 30th September 2023 (both days inclusive) for the purpose of the said AGM.

The Company has appointed Mr. Amit Gupta, Practicing Company Secretary as the scrutiniser to scrutinise the e-voting process in fair and transparent manner. The results of voting on the resolutions set out in the Notice of the AGM will be declared with 48 hours from the conclusion of the AGM. The results so declared along with the Scrutinizer's report shall be placed on the Company's website www.seatvnetwork.com and Link Intime's website https://instavote.linkintime.co.in.

In case shareholders/ members have any queries regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and InstaVote e-ing manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022 -4918 6000

Place: Agra Date: 05TH September, 2023

By Order of the Board of Directors of SEA TV NETWORK LTD

Sd/-KARISHMA JAIN (Company Secretary & Compliance officer)